

रामनगर में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़, एक को दबोचा

Publish Date: Sat, 20 Oct 2018 06:05 AM (IST)



रामनगर में आबकारी विभाग ने शहर में नकली शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़ किया है।

रामनगर : आबकारी विभाग ने शहर में नकली शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान एक युवक को दबोच लिया। बताया जा रहा है युवक लंबे समय से कच्ची शराब से नकली देसी शराब बना रहा था। उसके पास से नकली शराब बनाने की उपकरण बरामद हुए हैं।

आबकारी टीम को रेलवे पड़ाव स्थित एक मकान में नकली शराब बनाने की सूचना मिली। शुक्रवार की सुबह छह बजे आबकारी निरीक्षक पूरन चंद्र जोशी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आबकारी निरीक्षक ने जैसे ही मकान के अंदर छापा मारा तो एक युवक को पकड़ लिया। उसके पास से टीम को 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। इसके अलावा टीम कच्ची शराब बनाने का सामान देखकर दंग रह गई। कमरे के अंदर पच्चे, देसी शराब गुलाब मार्का के 663 लेवल, ढक्कन, ढक्कन सील करने की मशीन, छपाई के लिए मशीन, पैकिंग के लिए खाली गते, एल्कोहल की तीव्रता मापने का उपकरण, शराब में मिलाने वाला रंग केरोमल व प्लास्टिक के ड्रम बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह कच्ची शराब खरीदकर गुलाब मार्का की नकली शराब तैयार करता है। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम रेलवे पड़ाव निवासी रज्जा शाह पुत्र बाबू शाह बताया। आरोपित से पूछताछ के बाद उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपित को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह, कृष्ण चंद्र, राम सिंह मौजूद रहे। अवैध शराब पर नहीं लग पा रहा अंकुश

रामनगर : भले ही पुलिस अवैध शराब पर अंकुश के लिए कितने भी अभियान चलाए, लेकिन शराब माफिया इस कदर सक्रिय है कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। यही वजह है कि क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब का धंधा चल रहा है। आलम यह है कि अवैध शराब की खपत ज्यादा होने के कारण अब नकली शराब तक परोसी जाने लगी है। चंद पैसों के लिए शराब माफिया नकली शराब बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। पूर्व में भी पुलिस ने एक और व्यक्ति को नकली शराब बनाते पकड़ा था। उसके पास से नकली शराब बनाने का कई सामान बरामद हुआ था। इसके बाद आबकारी टीम ने फिर एक और नकली शराब बनाने वाले को पकड़ा है। आरोपित पिछले लंबे समय से लोगों को नकली शराब परोस रहा था। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह इस शराब को रानीखेत रोड टीआरसी के सामने ठेले व भवानीगंज क्षेत्र में लोगों को बेचता है। जहां अवैध शराब जमकर पी और पिलाई जाती है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttarakhand/nainital-police-caught-a-man-with-material-of-making-duplicate-liquor-18550319.html>